

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 196]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 3, 1968/आश्विन 11, 1890

No. 196]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 3, 1968/ASVINA 11, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग सकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September 1968

G.S.R. 1812.—In exercise of the powers conferred by Section 22 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government, being of the opinion that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the citizens of India from Section 3 of the said Act in so far as the said Section relates to their departure from India as members of the crew and as findals of the sailing vessels (registered in India and proceeding to ports outside India), holding identity cards or permits, under the Sailing Vessels (Members of the Crew) Rules, 1967.

[No. VI/401/96/67.]

ANTHONY G. MENESES, Addl. Secy.

(549)

